

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, डिप्टी मेयर की पोजीशन नियत की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (6 अप्रैल, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, काउंसिल और अन्य कमेटी मीटिंगों में प्रधानगी करने और मेयर की तरफ से समारोह संबंधी और सिविक कार्यक्रम संबंधी ड्यूटीज निभाने के लिए, डिप्टी मेयर (Deputy Mayor) की पोजीशन नियत की है।

डिप्टी मेयर की पोजीशन को, शहर के ईस्ट और वेस्ट हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हुए, दो भागों में बांटा जाएगा। इस टर्म ऑफ काउंसिल (Term of Council) के लिए, पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8, ईस्ट ब्रैम्पटन (East Brampton) का प्रतिनिधित्व करेंगे और मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4, वेस्ट ब्रैम्पटन (West Brampton) का प्रतिनिधित्व करेंगे।

पहले, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के प्रोसीजर बाइ-लॉ 160-2004 (Procedure By-law 160-2004) के अंतर्गत, मेयर के उपलब्ध न होने की स्थिति में, काउंसिल और अन्य कमेटी मीटिंगों में प्रधानगी करने और मेयर की तरफ से समारोह संबंधी और सिविक कार्यक्रम संबंधी ड्यूटीज निभाने के लिए, एक्टिंग मेयर (Acting Mayor) की नियुक्ति की गई थी। इस भूमिका को, सभी काउंसलर्स सहित, पूर्व-निर्धारित बदलने योग्य मासिक शिफ्टों के द्वारा पूरा किया जाता था। यदि मेयर और डिप्टी मेयर, दोनों उपलब्ध न हों, तो एक्टिंग मेयर, सिटी की तरफ से मीटिंगों में प्रतिनिधित्व करना और कार्यक्रमों में शामिल होना जारी रखेगा।

ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) और कमेटियों के बारे में अधिक जानकारी, Brampton.ca पर पाई जा सकती है।

हवाले

"ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल, सामूहिक तौर पर हमारे शहर में निवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं, ईस्ट ब्रैम्पटन की तरफ से डिप्टी मेयर की भूमिका निभाने के लिए और समारोह संबंधी और सिविक कार्यक्रमों में हमारी कम्युनिटी को मिलने के लिए उत्साहित हूँ।"

- पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; डिप्टी मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“संपूर्ण ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल में, सिटी के कारोबार को चलाने और हमारी कम्युनिटी की सेवा करने का जुनून है। मुझे डिप्टी मेयर के तौर पर वेस्ट ब्रैम्पटन का प्रतिनिधित्व करने पर बेहद गर्व महसूस हो रहा है। मैं इस पद पर हमारे शहर को सेवा देना जारी रखने के लिए उत्साहित हूँ।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसिलर, वार्ड्स 3 और 4, डिप्टी मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

multiculturalmedia@brampton.ca